

भारत का सजाफत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 1982/पौष 14, 1903
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 1982/PAUSA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1982

अ० आ० 1(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निवेश देता है कि उसकी तारीख 23 अक्तूबर, 1980 की अधिसूचना सं० 429/दिल्ली/79(1) में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाए :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में,—

(क) मद सं० 3 बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामन विद्यमान सांख्यिक प्रविष्टियां 1, 3 और 4 हटा दी जाएं तथा ऐसे संबंधित प्रविष्टि 2 की प्रविष्टि सं० 1 के रूप में पुनः सांख्यिक कर दिया जाए और ऐसी पुनः सांख्यिक उक्त प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाए :—

“2 श्री बी० एस० राणा,
भूमि अधिग्रहण कलेक्टर,
दिल्ली” और

(ख) अब सं० 6 दिल्ली नगर सप्तदीय निर्वाचन-क्षेत्र के नामने विद्यमान सांख्यिकित
प्रतिष्ठि 2 हटा दी जाए और शेष प्रतिष्ठियों को 1 और 2 के रूप में पुन संख्यांकित
कर दिया जाए ।

[सं० 429/दिल्ली/79(1)]

आदेश से

ओ० ना० नागर, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1982

O.N. 1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the Representation of the People, Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 429/DL/79(1), dated 23 October, 1980, namely:—

In column 2 of the table appended to the said notification,—

(a) against item No. 3—Outer Delhi parliamentary constituency, the existing entries numbered 1, 3 and 4 shall be deleted, the remaining entry numbered 2 shall be re-numbered as 1 and after the said entry so re-numbered the following entry shall be inserted :—

“2. Shri B. S. Rana,
Land Acquisition Collector,
Delhi.”; and

(b) against item No. 6—Delhi Nagar parliamentary constituency, the existing entry numbered 2 shall be deleted and the remaining entries shall be re-numbered as 1 and 2.

[No. 429/DL/79(1)]

By Order,

O. N. NAGAR, Under Secy.